

## प्रेस नोट

# थाना सीपरी बाजार पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर अंतर्राज्यीय चोर गिरफ्तार किये गये, चोरी की 05 मोटरसाइकिल, सोने चाँदी के जेवरात व नाजायज शस्त्र, कारतूस बरामद

दिनांक-31.01.2021

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री दिनेश कुमार पी0 महोदय के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर झाँसी श्री विवेक त्रिपाठी ,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा वाहन चोर/नकबजन गैंग के 03 चोरो को गिरफ्तार कर उनसे 5 अदद मो0सा0 व थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0स0 44/21 धारा 457/380 भा0द0वि0 से सम्बन्धित सोने चाँदी के जेवरात मय नाजायज शस्त्र कारतूस के साथ बरामद कर चोरी/नकबजनी की घटनाओ का सफल अनावरण किया गया ।

### घटना का विवरण-

विगत दिनों से जनपद में चोरी व वाहन चोरी की हो रही घटनाओ का गम्भीरता से संज्ञान लेते हुये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटनाओ के सफल अनावरण किये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये थे । उक्त क्रम में दिनांक 30.01.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना सीपरी बाजार के नेतृत्व में उ0नि0 देवेश कुमार व उ0नि0 अजय सिंह भदौरिया मय हमराह पुलिस बल के साथ रक्सा तिहारे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग कर रहे थे प्राप्त सूचना के क्रम में दतिया की ओर से आ रहे दो मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों को रोका गया मो0सा0 सवार मुड़ कर दतिया की ओर भागने लगे कि घेरा बन्दी कर दोनो भागने वाले व्यक्तियों को पकड़ लिया गया व जिनकी तलाशी ली गयी तो मोटर साइकिल चलाने वाले व्यक्ति इमरान उर्फ इम्मू पुत्र वसीर खॉन निवासी दातरे की नरिया थाना कोतवाली दतिया म0प्र0 के पास से नाजायज तमंचा व कारतूस व जेब से 2 अदद सोने की चूड़ी व दूसरे व्यक्ति राहुल गौतम पुत्र रघुनन्दन जी शर्मा नि0 आदर्श नगर कृष्णा कालोनी जिला टाक राजस्थान के कब्जे से भी दो सोने की चूड़ी बरामद की गयी व मोटर साइकिल के कागजात माँगे गये तो दिखा नहीं सके व कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि साहब ये मोटर साइकिल चोरी की है जिसे हम लोगो ने अपने गैंग के अन्य साथियों के साथ ग्वालियर से चोरी की थी हम लोग अपने अन्य साथियों के साथ विभिन्न क्षेत्रो से मोटर साइकिले व कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गुदरी कलारी के एक सूनसान घर का ताला तोड़कर सोने के जेवरात जिसमे हार ,एक चैन ,मंगल सूत्र ,लाकेट ,चाँदी की पायल व 7 हजार नकद रूपये , विदेश सिक्के आदि चोरी किये थे जिसमें कुछ चीजे आपस में बाट लिया था व कुछ बेचने के लिये अपने गैंग के साथी सुरेश सोनी जो कोतवाली में रहता है को दे दिया था पकड़े गये अभियुक्तों की निशादेही पर अन्य 4 अदद मोटर साइकिले जो अंशल बसेरा के पास खण्डहर में रखी थी व कोतवाली में सुरेश सोनी के घर से थाना कोतवाली पुलिस की

मदद से सोने चादी के जेवरात बरामद किये गये पकड़े गये बरामद की गयी मोटर साइकिल व सोने चाँदी के जेवरात के सम्बन्ध में थाना सीपरी बाजार व थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत है गौरतलब है कि इस गैंग के अन्य 3 सदस्य जो झाँसी पुलिस व ग्वालियर पुलिस द्वारा दो दिन पूर्व गिरफ्तार किया जा चुका है जिनके पास से भारी मात्रा में अबैध शस्त्र व कारतूस बरामद किये गये थे व गिरफ्तार अभि० इमरान उर्फ इम्मू म०प्र० का फरार वाँछित अपराधी है ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त –**

1. इमरान उर्फ इम्मू पुत्र वसीर खान निवासी दातरे की नरिया थाना कोतवाली दतिया म०प्र०
2. राहुल गौतम पुत्र रघुनन्दन जी शर्मा नि० आदर्श नगर कृष्णा कालोनी जिला टाक राजस्थान
3. सुरेश सोनी पुत्र ओमकार सोनी निवासी किराये का मकान शिवहरे मढिया मोहल्ला कोतवाली

### **बरामदगी का विवरण:-**

1. मो०सा० एक्सप्लस रंग काला जो थाना सी० बा० के मु०अ०स० 558/20 धारा 379 भा०द०वि० से सम्बन्धित है ।
2. अपाचे ब्लैक कलर बिना नम्बर प्लेट
3. हीरो हाण्डा प्रो काली हरी सफेद कलर
4. मोटर साइकिल प्रो ब्लैक
5. मोटर साइकिल अपाचे
6. चार अदद चूड़ी सोने की 7. एक जोड़ी पायल सफेद धातु 8. एक अदद हार सोने का जो थाना कोतवाली के मु०अ०स० 44/21 धारा 457/380/411 भा०द०वि०

### **गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

1. देवेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सीपरी बाजार झाँसी
2. उ०नि० देवेश कुमार सिंह थाना सीपरी बाजार झाँसी
3. उ०नि० अजय भदौरिया थाना सीपरी बाजार
4. उ०नि० राजकुमार सिंह थाना कोतवाली झाँसी
5. हे०का० 229 सदानन्द थाना सीपरी बाजार झाँसी
6. का० 475 शीलेन्द्र भदौरिया थाना सीपरी बाजार
7. का० 703 अंकित राज थाना सीपरी बाजार
8. का० 420 विक्रम सिंह थाना सीपरी बाजार
9. का० 271 राजकुमार थाना सीपरी बाजार
10. का० 936 अमित कुमार थाना सीपरी बाजार